

दैनिक

भारत सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त



मुंबई हलचल

अब हर सच होगा उजागर

MIX MITHAI

मोतीचूर लड्डू, काजू कतली, काजू रोल, बदाम बर्फी, मलाई पेड़े, रसगुल्ले

Order Now 98208 99501

ONLINE SHOP: www.mmithaiwala.com

MM MITHAIWALA

Malad (W), Tel. : 288 99 501.

स्कूल बसों का किराया 15 से 20 फीसदी तक बढ़ा



बस ओनर्स एसोसिएशन का फैसला

मुंबई हलचल / संवाददाता
मुंबई। नए शैक्षणिक सत्र में जब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल बस का किराया बढ़ चुका होगा। स्कूल बस ओनर्स एसोसिएशन ने 1 अप्रैल 2023 से स्कूल बसों का किराया बढ़ाने का फैसला किया है। किराए में 15 से 20 फीसदी का इजाफा किए जाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना काल खत्म होने के बाद एडमिशन फीस बढ़ना शुरू हुआ, डोनेशन बढ़ना शुरू हुआ और अब स्कूल बस का किराया बढ़ गया। यानी अभिभावकों को महंगाई का जोर का झटका लगा है। (शेष पृष्ठ 3 पर)

स्कूल बस किराया छूरहा आसमान, सरकार लगाए लगाम: अभिभावक

महाराष्ट्र के कई जिलों में गरज के साथ होगी बारिश



मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मुंबई हलचल / संवाददाता
मुंबई। महाराष्ट्र के किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, मध्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के चार जिलों में अगले दो दिनों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आज से मराठवाड़ा, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, धुले, नासिक, नंदुरबार, सोलापुर सहित विदर्भ में कुछ स्थानों में बारिश की संभावना है। जबकि बेमौसम बारिश से विदर्भ के अधिक प्रभावित होने की उम्मीद है। पिछले सप्ताह मराठवाड़ा के सभी आठ जिलों में बेमौसम बारिश हुई थी, जिससे अलग-अलग घटनाओं में छह लोगों की मौत हो गई थी। (शेष पृष्ठ 3 पर)



विरार में जीवदानी मंदिर से सटी पहाड़ी पर घूमने गई लड़की से गैंगरेप, प्रेमी को पीटा

मुंबई। मुंबई के करीब पालघर जिले के विरार में एक चौंकाने वाली वारदात हुई है। जहां प्रसिद्ध जीवदानी माता मंदिर से सटी पहाड़ी पर एक लड़की के साथ दो लोगों द्वारा कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया। यह शर्मनाक घटना तब हुई जब लड़की अपने प्रेमी के साथ शाम के समय पहाड़ी पर घूमने गई थी। (शेष पृष्ठ 3 पर)

मुंबई हलचल जरूरी सूचना

सभी को सुचित किया जाता है कि अगर दै. मुंबई हलचल के नाम पर कोई व्यक्ति संवाददाता बता कर आपसे कोई भी गलत व्यवहार करता है तो आप तुरंत अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराये, अगर आप उस व्यक्ति से कोई लेन-देन करते हैं तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे.

धन्यवाद...संपादक

आप दै. मुंबई हलचल के कार्यालय में नीचे दिये गये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं

9820961360

राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म

मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में गुरुवार को मिली थी दो साल की सजा

मुंबई हलचल / संवाददाता नई दिल्ली। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने कल ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने गुरुवार को ही राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा था। (शेष पृष्ठ 3 पर)



'विपक्ष के खेमे में दहशत फैलाने की साजिश है राहुल गांधी पर कार्रवाई'



नासिक। राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। विपक्षी खेमे में दहशत पैदा करने की यह साजिश है। अगर पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान हुआ था तो केस मोदी को करना था। उन्होंने केस क्यों किया? सूरत सेशन कोर्ट ने फैसला दिया है। (शेष पृष्ठ 3 पर)

हमारी बात



चुनाव सुधारों से चिंतित विपक्ष

विपक्षी पार्टियां भाजपा और नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान से ज्यादा चुनाव आयोग की ओर से किए जा रहे सुधारों से चिंतित हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम तो सिर्फ एक चीज है, पर विपक्षी पार्टियों की चिंता जाहिर हो रही है। लेकिन असल में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां आयोग की ओर से प्रस्तावित कई और सुधारों को लेकर चिंतित हैं। उनको लग रहा है कि इन सुधारों से वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, जिसका फायदा भाजपा को होगा और उनको घाटा हो सकता है। तभी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई और इसके कई पहलुओं पर चर्चा की। इससे पहले कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई थी और साथ ही कई तकनीकी जानकारों को भी बुलाया गया था, जिन्होंने ईवीएम की कमियां बताईं और बाद में कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे। तब कांग्रेस का मुख्य विरोध रिमोट ईवीएम को लेकर था, जिसका प्रस्ताव चुनाव आयोग ने दिया है। शरद पवार की चिंता भी रिमोट ईवीएम को लेकर है। इसके जरिए किसी राज्य का मतदाता दूसरे राज्य से भी वोट डाल सकेगा। विपक्षी पार्टियों ने इसकी कई व्यावहारिक समस्याएं चुनाव आयोग को बताईं हैं। लेकिन पुरानी कहावत है कि जिस विचार का समय आ जाता है उसे कोई रोक नहीं सकता है। सो, देर सबेर रिमोट ईवीएम का प्रयोग होने जा रहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कुछ और प्रस्ताव किए हैं, जिनको लेकर विपक्षी पार्टियां चिंतित हैं। इसमें सबसे ताजा प्रस्ताव प्रवासी भारतीयों को इलेक्ट्रॉनिक बालेट भेजने का है। चुनाव आयोग चाहता है कि दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों को भी मतदान करने का मौका मिले और इसके लिए उन्हें भारत आने की जरूरत न हो। इस योजना के तहत आयोग ने उनको इलेक्ट्रॉनिक बालेट भेजने का प्रस्ताव किया है। चाहे कांग्रेस हो या एनसीपी या दूसरी विपक्षी पार्टी उनको लग रहा है कि प्रवासी भारतीयों का वोट भाजपा को जाएगा। कई नेता इसमें गड़बड़ी की संभावना भी मान रहे हैं। इसलिए यह भी एक चिंता का मामला है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर बैठे वोटिंग की व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है। इसके मुताबिक 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगों को वोट डालने के लिए बूथ पर जाने की जरूरत नहीं है। उनको घर पर बालेट देकर वोटिंग कराई जाएगी और उनकी वोटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। विपक्ष को लग रहा है कि यह व्यवस्था भी भाजपा को फायदा पहुंचाएगी। कह सकते हैं कि चुनाव आयोग जितने नए प्रस्ताव ला रहा है या सुधार की बात कर रहा है उनसे विपक्ष को आपत्ति है।

भारतीय संस्कृति 'पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण'

भौतिक विकास के पीछे दौड़ रही दुनिया ने आज जरा ठहरकर सांस ली तो उसे अहसास हुआ कि चमक-धमक के फेर में क्या कीमत चुकाई जा रही है। आज ऐसा कोई देश नहीं है जो पर्यावरण संकट पर मंथन नहीं कर रहा हो। भारत भी चिंतित है, लेकिन जहां दूसरे देश भौतिक चक्राचौध के लिए अपना सबकुछ लुटा चुके हैं, वहीं भारत के पास आज भी बहुत कुछ है। पश्चिम के देशों ने प्रकृति को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पेड़ काटकर जंगल के कांक्रिट खड़े करते समय उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसके क्या गंभीर परिणाम होंगे? प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए पश्चिम में मजबूत परंपराएं भी नहीं थीं। प्रकृति संरक्षण का कोई संस्कार अखण्ड भारतभूमि को छोड़कर अन्यत्र देखने में नहीं आता है, जबकि सनातन परम्पराओं में प्रकृति संरक्षण के सूत्र मौजूद हैं। हिन्दू धर्म में प्रकृति पूजन को प्रकृति संरक्षण के तौर पर मान्यता है। भारत में पेड़-पौधों, नदी-पर्वत, ग्रह-नक्षत्र, अग्नि-वायु सहित प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ मानवीय रिश्ते जोड़े गए हैं। पेड़ की तुलना संतान से की गई है तो नदी को मां स्वरूप माना गया है। ग्रह-नक्षत्र, पहाड़ और



पक्षियों, जंगली-जानवरों, नदियां, सरोवर, वन, मिट्टी, घाटियों यहाँ तक कि पत्थर भी पूज्य हैं और उनके प्रति स्नेह तथा सम्मान की बात कही गई है। हमारा यह चिन्तन पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिये सार्थक तथा संरक्षण के लिये बहुमूल्य है। की यात्रा के पीछे यह प्रावधान रखा गया कि मानव विभिन्न जगहों की

और स्पष्ट करती है कि मानव के प्राणों की सुरक्षा तथा पवित्रता की सुरक्षा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा पर निर्भर करती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जिस मनुष्य को आध्यात्मिक अनुभूति हो जाती है तो वह अल्प साधनों से अपने हितों की पूर्ति कर सकता है, वह हर तरह से सामाजिक तथा आर्थिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऊंच-नीच के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि मानव अपनी शक्ति को देशहित में सुदृढ़ बनाए और नैतिक मूल्यों को समझे तथा नैतिक अनुशासन से नियमबद्ध हो, तभी उसकी भौतिकतावादी प्रवृत्ति पर अंकुश लग सकता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि इस तरह के कार्य को सम्पन्न करने के लिये किसी विशेष अध्ययन तथा चिन्तन की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी संस्कृति पर्यावरण के संरक्षण में नियमबद्ध तथा वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का सूत्र प्रदान करती है। इसमें कहीं भी संकीर्णता, धर्मान्धता, घृणा, पृथक्ता आदि दुगुणों के लिये कोई स्थान नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें निष्ठापूर्वक नैतिक अनुशासन की समस्त जन समुदाय को शिक्षा देनी चाहिए, जिससे पर्यावरण के प्रति प्रेम तथा उत्साह की भावना को प्रबल बनाया जा सके। हमारे शास्त्र किसी भी उद्देश्य को ध्यान में रखकर क्यो न रचे गए हों, एक बात स्पष्ट है कि आज यह व्यवस्था खास तौर पर पर्यावरण संरक्षण के लिये एक नयी दिशा तथा प्रदूषण से उत्पन्न चुनौतियों को जड़ से समाप्त करने में सक्षम है। पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा बचपन से ही आरम्भ की जाए और लोगों के मन में विश्वास कायम किया जाए, जब एक अबोध बालक अपने आस-पास की नैसर्गिक सुन्दरता से अति प्रसन्न होता है, तो एक परिपक्व मस्तिष्क उसके विनाश की बात क्यो सोचता है? इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक सुन्दरता का अनुसरण कराएं और इससे सम्बन्धित ज्ञान दें और उन्हें इस बात से परिचित कराएं कि हम चारों ओर से पर्यावरण के द्वारा प्रदान किये गये सुरक्षा कवच से घिरे हैं तो हमें इस कवच में सुराख करने का कभी भी नहीं सोचना चाहिए, अपितु उसे मजबूती प्रदान करनी चाहिए।



वायु देवरूप माने गए हैं। हमें विश्व का सबसे बड़ा तथा श्रेष्ठ लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। इसके बावजूद आज हम परिधान से लेकर खान-पान, ज्ञान से लेकर सम्मान, उत्पादन से लेकर उपभोग, और समझने से लेकर विचारने तक हर चीज में पश्चिमी तौर-तरीकों से ग्रस्त हैं। भारतीय संस्कृति पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका रखती है। मानव तथा प्रकृति के बीच अटूट रिश्ता कायम किया गया है, जो पूर्णतः वैज्ञानिक तथा संतुलित है। हमारे शास्त्रों में पेड़, पौधों, पुष्पों, पहाड़, झरने, पशु-

भौगोलिकता, पर्यावरण का ज्ञान, मनोरंजन के स्थल, अभ्यारण्य, अरण्य, सरोवर, झीलों के शुभ दर्शन कर सकते हैं। इससे लोगों के रहन-सहन, जीवनचर्या और जीवन-यापन करने के तौर-तरीकों का बोध होता है और अनेकता में एकता का आभास मिलता है। साथ ही मानव नैसर्गिक सौन्दर्यता से प्रभावित होता है और उसे मानसिक शान्ति की अनुभूति होती है।

हमारी संस्कृति पर्यावरण संरक्षण प्रधान रही है, जो प्रदूषण पर विराम लगाती है और आध्यात्मिक मनोविज्ञान को स्वीकार करती है

पूजा गुप्ता
मिजापुर (उत्तर प्रदेश)

मुस्लिम लीग की फरहत शेख और जहांगीर शेख ने अपनी बे मुद्दत हड़ताल तोड़ी

मुंबई हलचल / संवाददाता

मुंब्रा। बीते आठ दिनों से बे मुद्दत भूख हड़ताल पर बैठी फरहत शेख ने आखिरकर अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है। आपको बताते चलें कौसा एम एमवैली स्थित सरकारी अस्पताल जोकि स्वतंत्र सैनिक हकीम अजमल खान के नाम से बनाया गया है। इस सरकारी अस्पताल का निजीकरण करने की बातें सामने आ रही है जिस पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा बे मुद्दत भूख हड़ताल की गई और यह मांग की गई है इसे सरकारी अस्पताल को पूरी तरह से ही सरकारी अस्पताल ही रहने दिया जाए किसी भी कीमत पर सरकारी अस्पताल का निजीकरण नहीं होना चाहिए और जो टेंडर निकाला गया है उसे भी रद्द किया जाए उन्होंने सरकारी अस्पताल निजीकरण पर विरोध जताते हुए कहा कि जिस प्रकार ठाणे मनपा प्रशासन इस अस्पताल को निजीकरण करने का प्रयास सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर किया जा रहा उसे मुझे रोकना था और जो टेंडर निकाला



गया था उसे रद्द कराना था अगर यह अस्पताल को मनपा प्रशासन पूरी तरह से सरकारी अस्पताल करती है तो लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी और निजीकरण करने से लोगों को सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी क्योंकि निजीकरण करने के बाद जो बीमारियों का इलाज योजनाओं के मातहत कराया जाएगा लेकिन योजनाओं के अंतर्गत जो बीमारी आती है केवल उन्हीं बीमारियों का उपचार किया जाएगा और अन्य बीमारियों का उपचार के लिए आपको पैसे देने होंगे और हम यह चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल को निशुल्क अस्पताल जनता के लिए किया जाए जिसमें सभी बीमारियों का

उपचार हो सके यही कारणों के तहत मैंने यह भूख हड़ताल की है इसका संज्ञान लेते हुए ठाणे मनपा प्रशासन के उपायुक्त मनीष जोशी द्वारा आश्वासन दिया गया है यह अस्पताल का निजीकरण नहीं किया जाएगा और हमारी ओर से पूरी कोशिश यह की जाएगी की यह सरकारी अस्पताल को पूरी तरह से सरकारी ही रहने दिया जाए फिलहाल जो आश्वासन मनीष जोशी की तरफ से दिया गया है वह खाली जबानी दी गई है किसी प्रकार का कोई लिखित आश्वासन ठाणे मनपा प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है फिलहाल मनीष जोशी की तरफ से जूस पिलाकर फरहत शेख और जहांगीर शेख की बे मुद्दत हड़ताल को खत्म किया गया अब देखना यह है जो आश्वासन मनीष जोशी की तरफ से दिया गया है उसमें कितनी सच्चाई सिद्ध होती है यह तो समय ही बताएगा अब देखना यह है ठाणे मनपा प्रशासन सरकारी अस्पताल को पूरी तरह से सरकारी करती है या निजीकरण करती है यह देखने वाली बात होगी।

(पृष्ठ 1 का समाचार)

महाराष्ट्र के कई जिलों में गरज के साथ होगी बारिश

बारिश से जुड़ी घटनाओं में परभणी में पांच और लातूर में एक शख्स की मौत हुई। जबकि लगभग एक लाख हेक्टेयर में फैली फसलों को व्यापक नुकसान हुआ था। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उस्मानाबाद, परभणी, लातूर और नांदेड़ जिलों में शुक्रवार और शनिवार को 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। एक अधिकारी ने बताया कि मराठवाड़ा क्षेत्र में बीते हफ्ते हुई बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि महज पांच दिनों की बारिश के कारण छह जिलों में 62480 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर फसल खराब हो गई। इन छह जिलों में औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, बीड और लातूर शामिल हैं।

राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म

जिसके खिलाफ राहुल के खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में सात पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है। यह अधिसूचना लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी हुई है। इसकी एक-एक प्रति राहुल गांधी, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लायसन अधिकारी, संपदा निदेशालय, संसद भवन एनेक्सी, एनडीएमसी सचिव, दूरसंचार लायसन अधिकारी और लोकसभा सचिवालय के सभी अफसरों और शाखाओं को भेजी गई है।

विपक्ष के खेमे में दहशत फैलाने की साजिश है

राहुल गांधी पर कार्रवाई

संजय राउत फिलहाल नासिक में हैं। वहीं उन्होंने मीडिया संवाद करते हुए अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। दो दिनों पहले राज ठाकरे ने अपने भाषण में मुंबई के माहिम के पास एक दरगाह के अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया था और चेतावनी दी थी कि अगर इस अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा गया तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दरगाह के बगल में एक विशाल गणपति मंदिर का निर्माण करवाएंगे।

स्कूल बसों का किराया 15 से 20 फीसदी तक बढ़ा

ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने का तर्क देकर बस ओनर्स एसोसिएशन ने किराया बढ़ाने का फैसला गुरुवार को लिया। एसोसिएशन का कहना है कि ईंधन की दरें बढ़ने से पहले से ही बस को चलाने का खर्च बढ़ा हुआ है, उस पर अगले महीने से प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नए नियम यानी स्क्रीपिंग के नियम लागू होने जा रहे हैं। इससे बसों में मॉडिफिकेशन किया जाना जरूरी हो गया है। हर बस के तकनीकी आधुनिकीकरण में डेढ़ से दो लाख का खर्च आएगा। इस वजह से बस किराया बढ़ाना ही एक विकल्प दिखाई दे रहा है। एसोसिएशन का तर्क है कि बस की देखभाल और मरम्मत का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। स्पेयर पार्ट्स, टायर और बैटरी के दामों में 10 से 20 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। नए बसों को खरीदने की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा ड्राइवर, कंडक्टर, महिला अटेंडेंस ने भी अगले महीने से वेतन बढ़ाने की मांग की है। उन सबके वेतन में दो हजार से ढाई हजार रुपए की बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया गया है। इन खर्चों को वहन करने के लिए भी यह जरूरी हो गया था। इन सब खर्चों को हम कहाँ से उठाएंगे। इसलिए किराया बढ़ाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचता है। महाराष्ट्र में करीब 40 से 45 हजार और मुंबई में 7 से 10 हजार स्कूल बसें हैं।

विरार में जीवदानी मंदिर से सटी पहाड़ी पर

घूमने गई लड़की से गैंगरेप

जानकारी के मुताबिक, कथित गैंगरेप की यह घटना 22 मार्च की शाम को हुई थी। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने पीड़िता के साथ आये लड़के से मारपीट की और उसे कथित एक पेड़ से बांध दिया और फिर तौर पर लड़की का यौन उत्पीड़न किया। आरोपियों की उम्र 22 और 25 साल बताई जा रही है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि लड़की और अपने प्रेमी के साथ शाम में पहाड़ी पर सैर के लिए गई थी, तभी वहां मौजूद आरोपियों ने उन्हें धमकाया और मारपीट की।

पहली बार क्रिकेट स्पर्धा प्रीमियर लीग प्रतियोगिता एवीके विने विंसेंट रिमोडिस द्वारा आयोजित हुआ संपन्न

मुंबई हलचल / संवाददाता

मुंब्रा। गत 20 मार्च सोमवार कोसा परिसर स्थित वाई जंक्शन टर्फ मैनीया में क्रिकेट स्पर्धा प्रीमियर लीग प्रतियोगिता सीजन वन का आयोजन एवीके विने विंसेंट रिमोडिस द्वारा आयोजित किया गया इस क्रिकेट खेल प्रतियोगिता सीजन वन में चार टीम ने हिस्सा लिया (1) एरलिन स्पार्टंस ऑनर एरलिन विंसेंट माउंट मैरी (2) ताज 11 ऑनर अली बुशरा (3) डीएच बॉयज ऑनर ड्रीम हलचल (4) जबल लाइन ऑनर जबल इन चार टीमों द्वारा इस प्रीमियर लीग प्रतियोगिता में हिस्सा



लेकर रात 8 बजे खेल शुरू किया गया चार टीमों द्वारा बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया गया लेकिन दो टीम फाइनल राउंड में पहुंचने में कामयाब रही डीएच बॉयज और एरलिन स्पार्टेंस उसके बाद मुकाबला इन दोनों टीमों में जबबरदस्त रहा लेकिन इस खेल प्रतियोगिता में जीत का सेहरा एरलिन स्पार्टेंस ऑनर एरलिन विंसेंट माउंट मैरी हॉल के अयाज काजी के हात ट्रॉफी आ गई या जो खेल का आयोजन किया गया था वह मित्रता के आधार पर खेला गया था और भविष्य में इस तरह की खेल प्रतियोगिता हमारी ओर से आयोजित किए जाएंगे।

कानूनी सलाहकार



एडवोकेट परवेज बी. कुर्नूरकर

आप सभी को सुचित किया जाता है कि अगर आपको किसी प्रकार की कानूनी सलाह की आवश्यकता हो, जैसे पुलिस मैटर, कोर्ट मैटर व अन्य किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे।

Cell : 9769659975

Email: Parvezk9001@rediffmail.com

खैरखाही फाउंडेशन द्वारा रमजान की चांद रात से पहले वितरित किए गए 260 रमजान खैरखाही पैकेज

मुंबई हलचल / संवाददाता

मुंब्रा। खैरखाही फाउंडेशन मुंब्रा शहर की एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है और गरीब जनता की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस अवसर पर द. मुंबई हलचल के पत्रकार से बात करते हुए खैरखाही फाउंडेशन के अध्यक्ष मुजाहिद अतारी ने बताया कि हमारी संस्था द्वारा इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान की मौत तक हर मामलात में उम्मत

की खैरखाही का मकसद रखती है आज के दौर में जो दिखता है वह बिकता है की आवाज आती है लोगों को लाइन में खड़ा करके लोगों को सामान दिया जाता है

और लोगों की तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डाली जाती है और लोगों को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है वही खैरखाही फाउंडेशन ने लोगों को बुलाए बगैर उनके घरों तक रमजान का राशन पहुंचाया किसी के पड़ोसी तक को पता नहीं चलता कि राशन किसी ट्रस्ट से आया है या किसी दुकान से लोगों की इज्जत ओ अजमत का ख्याल रखा है यह वाकई बेमिसाल काम है उलमा ए किराम की रहनुमाई में काम करने वाली इस संस्था ने कई मस्जिद के इमाम मुअज्जिन और खादिम साहिबान की घरों पर राशन

पहुंचाया साथ ही साथ बेवा यतीम दिव्यांग बुजुर्ग और कई जरूरतमंदों का ख्याल रखा है मुजाहिद ने बताया हमारी संस्था सफेद पोशो का सहारा बना है उनके लिए रमजान में भी राशन का सिलसिला जारी रहेगा इफ्तार पैकेज ईद पैकेज और जरूरतमंदों को ईदी भी दी जाएगी हमारी संस्था पिछले 5 वर्षों से काम करते हुए राशन मेडिकल एजुकेशन दो चैरिटेबल क्लिनिक में काम कर रही है अन करीब मुंब्रा शहर की आवांम ही चैरिटेबल पैथोलॉजी लैब के जरिए खिदमत करेगी जिसमें हर साल आने वाली बीमारी के लिए बेहद कम दामों में ब्लड टेस्ट होंगे और पूरे मुंब्रा में 12वीं शरीफ की निस्बत से 12 सेंटर कायम की जाएंगी

जहां आने वाले वक्त में गरीबों को जरूरतमंदों के लिए मुफ्त अनाज और टेस्ट की शुरुआत होगी इस प्रोजेक्ट के लिए हजरत मोहिन ए मिल्लत और हजूर मोहिन मियां अशरफी साहब ने अपनी दुआओं से नवाजा है इस चैरिटेबल लैब के लिए 10 लाख की जरूरत है और अब तक हमारे पास 4,10,000/-रुपए ही जमा हो पाए हैं जनता से निवेदन है कि रमजान के महीने में हमारी संस्था की मदद फरमाए हमारी संस्था का भरपूर सहयोग करें और हमारी नियत और अखलाक सलामत रहे इसकी दुआ फरमाए।



राम सिंह को मिला महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार



मुंबई। कवि, साहित्यकार एवं पूर्व प्रधानाध्यापक राम सिंह को राष्ट्रभक्ति लेखन के लिए उनकी कृति 'जय भारत जय हिन्दुस्तान' पर महाराष्ट्र राज्य हिन्दी साहित्य अकादमी द्वारा 'शशिभूषण वाजपेई हिन्दी लेखक' रजत पुरस्कार सम्मान प्रदान किया गया। हिन्दी साहित्य अकादमी द्वारा यह कार्यक्रम बान्द्रा पश्चिम मुंबई के रंग शारदा सभागृह में आयोजित किया गया। आप को ज्ञात करतें चलें कि, हिन्दी साहित्य अकादमी द्वारा विगत तीन वर्षों से स्थागित पुरस्कारों को एक ही साथ प्रदान किये जाने से कल गुहवार, 23 मार्च को रंग शारदा सभागृह खचाखच भरा रहा। जौनपुर जनपद उत्तर प्रदेश के मूल निवासी राम सिंह को इसके पहले भी महाराष्ट्र शासन, मुंबई महानगर पालिका एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा अभी तक दर्जनों पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं।

अवैध खनन पर फिर चला विभागीय हंटर एक स्टोन क्रेशर समेत दो ट्रैक्टर सीज

मुंबई हलचल/फहीम अहमद राज हरिद्वार। अवैध खनन पर खनन विभाग कार्रवाई लगातार जारी खनन विभाग हरिद्वार की ओर से की गई कार्यवाही में 1 स्टोन क्रेशर व 2 ट्रैक्टर सीज किए गए। खनन विभाग हरिद्वार ने जिला खान अधिकारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में आज अपनी विभागीय टीम के साथ भोगपुर, टाडा भागमलपुर, भिकमपुर, विशनपुर आदि क्षेत्रों में अपने वाहन को छोड़कर स्टाफ के वाहन में जाकर औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। जिसमें आज भोगपुर क्षेत्र में 1 ट्रैक्टर सं0-UK08AS 2793 में 3 घन मी0 आर0बी0एम0 बिना रवन्ना भरे सीज किया गया तथा भिकमपुर में अवैध रेत भरा 1 ट्रैक्टर सं0-4568 सीज किया गया है। जिन्हें स्टोन क्रेशर/स्टॉक में सुपुर्द किया गया है। उक्त के पश्चात खनन विभाग की टीम



विशनपुर की ओर से आ रहे थे, तभी पाल स्टोन क्रेशर में कच्चा माल बाहर से ही देखा गया तो तुरंत टीम स्टोन क्रेशर के अंदर जाकर मौके पर ही खान अधिकारी द्वारा टीम को स्टोन क्रेशर के कच्चा व पक्का माल की पैमाइश के निर्देश दिये, जिसमें ई रवन्ना से मिलान करने पर पाया गया कि स्टोन क्रेशर में 1302 घन मी0 अवैध उपखनिज पाया गया, जिसमें अनियमितता पाये जाने पर खान अधिकारी ने

तत्काल पाल स्टोन क्रेशर को सीज कर दिया गया है, जिसमें 4 लाख का जुर्माना ठोका गया है। स्टोन क्रेशर की सुपुर्दगी स्टोन क्रेशर मुंशी रूपम कुमार की दी गयी है और हिदायत दी गयी है कि अग्रिम आदेशों तक स्टोन क्रेशर में क्रय-विक्रय बन्द रखें। विशनपुर क्षेत्र में अवैध खनन से बने गड्ढों की पैमाइश की गयी है, जिस भी भूमिधर द्वारा अपनी भूमि में अवैध करवाया जा रहा है, उसका सत्यापन राजस्व विभाग से करवाकर रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित कर जुमाना वसूला जायेगा। जिला खान अधिकारी का कहना है कि हमारे द्वारा लगातार कार्यवाही कि जा रही है, अवैध खनन करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अवैध खनन की कार्यवाही में जिला खान अधिकारी, प्रदीप कुमार, सर्वेयर विवेक कुमार, खनिज मोहरीर माधो सिंह, विजय सिंह व पी0आर0डी0 स्टाफ पदम सिंह थे।



विप्र सेना बीकानेर परिवार में मनाया उत्सव

संवाददाता/सैय्यद अलताफ हुसैन बीकानेर। विप्र रत्न माननीय सीपी जोशी साहब के राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर विप्र सेना बीकानेर परिवार ने गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर उत्सव मनाया सभी विप्र वंशुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

15 साल बाद क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आया 5.3 करोड़ की टगी का आरोपित

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

क्राइम ब्रांच ने टगी के मामले में 15 साल से फरार चल रहे एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। 5.3 करोड़ की टगी के इस केस में आरोपी को कोर्ट ने भगोड़ा भी घोषित किया हुआ था। इसके बाद गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका था। आरोपी का नाम प्रदीप शर्मा (50) निवासी पश्चिम विहार है। पुलिस ने इसे बहादुरगढ़ से गिरफ्तार किया। स्पेशल सीपी रविन्द्र यादव ने बताया कि 2008 में प्रदीप शर्मा पश्चिम



विहार में बतौर किराएदार रहता था। इसने अपने भाई कुलदीप शर्मा व अन्य लोगों के साथ मिलकर उस प्रॉपर्टी के फर्जी कागजात तैयार किए

प्रॉपर्टी के फर्जी कागजात तैयार कर दो बैंकों से उठाया था लोन

बेच भी दिया था। इसने खुद को प्रॉपर्टी का मालिक प्रेमनाथ खन्ना बताया था। इसके खिलाफ पश्चिम विहार थाने में टगी का केस दर्ज हुआ था और बाद में मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा के पास पहुंची थी। आरोपी केवल आठवीं तक पढ़ा है। पहले वह आईसीआईसीआई बैंक में इंश्योरेंस प्रतिनिधि के तौर पर काम करता था।

इंस्टाग्राम पर सस्ते मोबाइल का झांसा देकर टगी, छह दबोचे

नई दिल्ली। दक्षिणी पश्चिमी जिले की साइबर पुलिस ने छह जालसाजों को अरेस्ट किया है। इन पर इंस्टाग्राम पर बिजनेस पेज बनाकर सस्ते दाम पर मोबाइल बेचने का झांसा देकर टगी करने का आरोप है। ठगों के पास से दर्जनभर से ज्यादा मोबाइल, एक लैपटॉप, दो राउटर और एक इंटर्नेट डोंगल बरामद हुआ है। गिरफ्त में आये ठगों के नाम रमन प्रीत सिंह, अवि तनेजा, सूरज रावत, विजय, अमन चौहान व नितीश सिंह हैं। डीसीपी



मनोज सी के अनुसार विकास कटियार नाम के एक शख्स ने साइबर पुलिस स्टेशन में चॉटिंग का

केस दर्ज कराया था। पीड़ित ने बताया था कि छह फरवरी को उसने इंस्टाग्राम पेज पर आई फोन का विज्ञापन देखा। खरीदने के लिये दिए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। आरोपी ने खुद की पहचान रिषम के तौर पर दी और बताया कि वह सेल्स डिपार्टमेंट से है। आरोपी ने आईफोन की 30 प्रतिशत पेमेंट ऑनलाइन करने के लिए कहा। शुरु में शिकायतकर्ता ने 28 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिये। लेकिन बाद में उसे जाल में ऐसा फंसाया कि

लाखों की रकम गंवा बैठा। 18 फरवरी को किया गया था केस दर्ज शिकायत पर 18 फरवरी को चॉटिंग का केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने टेक्नीकल सर्विलांस, बैंक डिटेल्स के आधार पर तपतीश को आगे बढ़ाया। एक बैंक अकाउंट होल्डर नितीश कुमार को पकड़ लिया। बाद में हुई पूछताछ के बाद अन्य पांच आरोपी भी पकड़ लिए गए।

मुंबई में दिन दहाड़े 5 लोगों को मारा चाकू, 2 की मौत, 3 जखमी

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक शख्स ने दिन दहाड़े दो लोगों को चाकू मार कर हत्या कर दी और 3 लोगों को जखमी कर दिया। यह घटना दक्षिण मुंबई के ग्रांट रोड के पास एक रिहाइशी इमारत में हुई। अम्सरा सिनेमा हॉल के पास

स्थित इस इमारत में एक 54 साल के शख्स ने शुक्रवार (24 मार्च) को अपने पड़ोसियों पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। यह घटना शाम के साढ़े तीन बजे पार्वती मेशन नाम की बिल्डिंग में हुई। इस हमले में जखमी हुए लोगों को तुरंत पास के

गिरगांव इलाके के अस्पताल में एडमिट करवाया गया। इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। तीन लोगों का उपचार शुरू है। मरने वालों का नाम जयेंद्र और नीला मिस्त्री है। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है।

फेड का मुख्य फोकस अभी भी महंगाई को रोकना

अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने 0.25 फीसदी बढ़ाई ब्याज दर, आगे एक और बढ़ोतरी का संकेत

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

अमेरिका के केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व ने प्रमुख ब्याज दरों में एक बार फिर 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने साफ कर दिया कि उसका मुख्य फोकस अभी भी महंगाई को रोकना है। फेडरल रिजर्व ने यह भी संकेत दिया है कि वह इस साल के अंत तक एक और बार ब्याज दर बढ़ा सकता है। फेडरल रिजर्व बैंक ने ये ब्याज दरें ऐसे समय में बढ़ाई है, जब सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद बैंकिंग सेक्टर में तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। फेडरल रिजर्व ने इस बैंकिंग संकट पर सतर्क रख दिखाया और संकेत दिया कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी अपने शिखर के करीब है। यानी बढ़ोतरी जल्द ही खत्म हो सकती है।

जमा के लिए बीमा पर विचार नहीं

अमेरिकी वित्त मंत्री पावेल के बयान से चिंता बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि सभी जमा के लिए बीमा पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, 'घरेलू बाजार ने अनुकूल अमेरिका वायदा के साथ शुरुआती नुकसान से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन रिस्क नेशनल बैंक के नीतिगत दर में 0.50 प्रतिशत की वृद्धि के बाद पूरीरी बजारों में नरम शुरुआत से तेजी कुछ समय के लिए ही रही।'



ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद वॉल स्ट्रीट में तेजी

अमेरिकी फेड का ऐलान मोटे तौर पर बाजार के अनुमानों के सुनिश्चित रहा है। अधिकतर विश्लेषक ने ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान जताया था। फेडरल रिजर्व के ऐलान के बाद एस&प500 500 इंडेक्स 0.26 फीसदी बढ़ गया। हालांकि इस दौरान डॉलर इंडेक्स 0.465 प्रतिशत गिरकर 102.680 पर आ गया।

- साल के अंत तक एक बार और ब्याज दर बढ़ा सकता है
- फेड ने ब्याज दरें ऐसे समय बढ़ाई जब बैंकिंग सेक्टर में तनाव है
- लोगों के लिए अब लोन पाना थोड़ा महंगा हो सकता है

अभय-द फीयरलेस के .सी. के रोटरेक्ट क्लब की एक विरासत परियोजना

मुंबई। अभय-द फीयरलेस के .सी. के रोटरेक्ट क्लब की एक विरासत परियोजना है। कॉलेज जिसमें पांच वर्षों से अधिक समय से हमने सेना, नौसेना और वायु सेना के अधिकारियों को सम्मानित किया है। वर्ष के लिए अपनी थीम, 'पेंटिंग अवर पोलारिस' को ध्यान में रखते हुए, हमने विभिन्न सामुदायिक सेवा प्रदाताओं जैसे मेट्रो कर्मचारियों, बीएमसी श्रमिकों, द डब्बावाला समुदाय, हमारे अपने कॉलेज के सहायक कर्मचारियों, अग्निशमन कर्मियों, कोली समुदाय, को कॉल करने का निर्णय लिया। रेलवे कर्मचारी, और बहुत कुछ। हमने उनके लिए अपने स्वयं के कॉलेज सभागार में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थापित किया था जिसमें नृत्य और गायन के रचनात्मक प्रभाव शामिल थे। हमारे समय के पुरुषों और महिलाओं के लिए एक ब्रदरजॉल के रूप में हवाई प्रदर्शन। प्रत्येक समुदाय ने छात्रों के साथ अपने साहसी किस्सों को साझा किया। समुदायों को हमारे कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल, डॉ. शालिनी सिन्हा मैम द्वारा सम्मानित किया गया। अभय - द फीयरलेस द रोटरेक्ट क्लब ऑफ .सी. कॉलेज युवा मन को प्रेरित करता है और उन समुदायों की सेवा करने में गर्व और सम्मान की भावना पैदा करता है जो पीढ़ियों से हमारी और हमारे परिवार की सेवा कर रहे हैं।



विरार स्टेशन पर पटरी पार कर रहे परिवार को ट्रेन ने उड़ाया, तीन माह के बच्चे समेत 3 की मौत

मुंबई। मुंबई के नजदीक विरार रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक घटना हुई है। विरार स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार करते समय एक ही परिवार के तीन लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मरने वालों में एक पुरुष, एक महिला और तीन महीने का बच्चा शामिल है। वसई रोड रेलवे पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई से करीब 65 किलोमीटर

दूर विरार रेलवे स्टेशन के पास रात करीब साढ़े बारह बजे तीनों को एक्सप्रेस ट्रेन ने उड़ा दिया। पूरी घटना से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। अधिकारी ने कहा कि मृतकों की पहचान अजीत पटेल (28), सीमा पटेल (26) और उनके बच्चे आर्यन के रूप में हुई है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पीड़ित परिवार उस समय पटरियों पर क्यों गया था। शुरुआती जानकारी में कहा जा रहा है कि पश्चिम रेलवे के विरार स्टेशन पर पति-पत्नी अपने बच्चे को लेकर रेलवे पुल से जाने की बजाय प्लेटफॉर्म नंबर चार और पांच के बीच रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। तभी अचानक ट्रेन आ गई।

Dubai ALISHA TRAVEL

All Countries Visa

Domestic & International
Air Tickets

Domestic & International
Hotel Bookings

Holiday Package

WHATSAPP 00919015064472

alishatravel@rediffmail.com

दैनिक मुंबई हलचल जरूरी सूचना

पाठकों, शुभचिंतकों व विज्ञापनदाताओं को सुचित किया जाता है कि अगर किसी को कोई समस्या हो तो वह नीचे दिये गये दै. मुंबई हलचल कार्यालय नंबर पर संपर्क करें. साथ ही आप अपने क्षेत्र के समस्याओं की समाचार व वीडियो हमें भेज सकते हैं.

धन्यवाद... संपादक
9821238815

कुरुक्षेत्र के शाहबाद में सिद्धार्थ कॉलोनी में साथी के साथ रुका अमृतपाल पंजाब से भागकर हरियाणा में छिपा घर में पनाह देने वाली महिला अरेस्ट

मुंबई हलचल / शाहबाद

पंजाब पुलिस की पकड़ से बाहर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि 18 मार्च को फरार होने के बाद वो अगले दिन हरियाणा में था। यहां वो अपने एक करीबी के घर में रुका और अगली सुबह जल्दी वहां से निकल गया। हरियाणा पुलिस ने बलजीत कौर नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। उस पर कुरुक्षेत्र जिले में अपने घर में अमृतपाल को शरण देने का आरोप है। कौर ने बताया कि अमृतपाल अपने एक और साथी पापलप्रीत के साथ आया था। अमृतपाल 19 और 20 मार्च को कुरुक्षेत्र के शाहबाद में सिद्धार्थ कॉलोनी में रुका था। कौर से पूछताछ की जा रही है। वह उत्तराखंड में दाखिल होने की कोशिश कर सकता है। कुरुक्षेत्र के एसपी सुरिंदर सिंह भोरिया ने कहा कि हमने बलजीत कौर नाम की महिला को पकड़ा है। उसने अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगी पापलप्रीत सिंह को शाहबाद में अपने घर में रविवार को शरण दी। महिला को पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है। महिला और अमृतपाल 2.5 साल से संपर्क में थे।

बताया जा रहा है कि 18 मार्च को फरार होने के बाद वो अगले दिन हरियाणा में था। यहां वो अपने एक करीबी के घर में रुका और अगली सुबह जल्दी वहां से निकल गया। 19 और 20 मार्च को कुरुक्षेत्र के शाहबाद में सिद्धार्थ कॉलोनी में रुका था। कौर से पूछताछ की जा रही

अब तक 5 सहयोगियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लोकेशन की जा रही ट्रेस



विदेश भागने की जताई जा रही आशंका

जानकारी ये भी है कि अमृतपाल दिल्ली में दाखिल होकर फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागने या ट्रेन के माध्यम से बिहार-नेपाल बॉर्डर तक जाने का प्रयास कर सकता है। पंजाब पुलिस की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के गनमैन तेजिंदर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा को काबू किया है। 18 मार्च को जब वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल के खिलाफ पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया, तभी से गिल फरार था।

30 लोग गिरफ्तार, 77 को प्रिवेंटिव डिटेन्शन में रखा

इस पूरे मामले पर आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा है कि पुलिस किसी भी बैकसूर को गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर किया भी जाता है तो उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। हमने अलग-अलग जगहों से अब तक 207 लोगों को हिरासत में लिया है, इनमें से 30 को आपराधिक मामलों के तहत गिरफ्तार किया है। राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 177 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेन्शन में रखा गया है।



अजनाला हिंसा को दिया था अमृतपाल ने अंजाम

वो सोशल मीडिया पर हथियारों की फोटोज और वीडियो पोस्ट करता था, जबकि उसके पास लाइसेंस नहीं था। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं वो 23 फरवरी को अजनाला पुलिस स्टेशन में हुई हिंसा में भी शामिल था। इस मामले में भी उस पर कार्रवाई होगी।

8 राज्यों में तलाश, गनमैन गोरखा बाबा धराया

खालिस्तानी चरमपंथी अमृतपाल सिंह भले ही अब तक पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन उसके ऊपर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब तक अमृतपाल देश की सीमा पार नहीं कर पाया है। उसके 8 राज्यों में छिपे होने की संभावना जताई गई है। इन राज्यों में पुलिस ने अपना जाल फैला दिया है। उधर, अमृतपाल के गनमैन तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा को पुलिस ने दबोच लिया है। गिल लुधियाना जिले के खन्ना इलाके के मांगेवाल गांव का निवासी है। वह अमृतपाल की सुरक्षा में तैनात था। इसे पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस ने फरारी के बाद अमृतपाल को शरण देने वाली एक महिला को भी गिरफ्तार किया है।



पत्रकार एकता संघ के प्रदेश विधिक सलाहकार उदयपुर के एडवोकेट सुनील त्रिपाठी महर्षि गौतम गौरव सम्मान से सम्मानित

मुंबई हलचल / भैरु सिंह राठौड़

राजस्थान। झीलों की नगरी उदयपुर में 21 मार्च 2023 को समस्त गुर्जरगोड़ ब्राह्मण समाज संस्थान, उदयपुर के तत्वाधान में सुखाड़िया रंगमंच नगर निगम

उदयपुर सभागार में आयोजित भव्य एक दिवसीय गौतम गौरव सम्मान समारोह 2023 में चित्तौड़गढ़ जिले के नंगावली ग्राम के मूल निवासी वर्तमान में पुराना आर टी ओ प्रताप नगर उदयपुर निवासरत प्रसिद्ध अधिवक्ता, समाजसेवी, ज्योतिषाचार्य एवं पत्रकार एकता संघ के प्रदेश विधिक सलाहकार एडवोकेट पंडित सुनील त्रिपाठी को उत्कृष्ट ज्योतिष सेवाओं के लिए महर्षि गौतम गौरव सम्मान -2023 अलंकरण से सम्मानित किया गया। उक्त सम्मान कार्यक्रम के अध्यक्ष राकेश जोशी, प्रदेश महासचिव विवेक पंचोली, प्रभात रंजन शर्मा कार्यक्रम संयोजक हरीश मारवाड़ा, दिल्लीप



त्रिपाठी, योगेश व्यास, संदीप व्यास ने एवं अन्य सैकड़ों समाजजन की उपस्थिति में एडवोकेट त्रिपाठी को प्रमाण पत्र, ट्रॉफी, माला इत्यादि भेंट कर सम्मानित किया गया। पत्रकार एकता संघ के राजस्थान प्रदेश विधिक

सलाहकार त्रिपाठी को सम्मानित किए जाने पर कईयों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बधाई देने वालों में पत्रकार एकता संघ के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पत्रकार एवं संपादक भैरु सिंह राठौड़ (भीलवाड़ा), भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती के. बी. सुखवाल (उदयपुर), पत्रकार एकता संघ की राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार सुश्री पुष्पा भाटी (श्रीगंगानगर), वरिष्ठ समाजसेवी सुनील सुखवाल (उदयपुर), पत्रकार गोपाल वैष्णव (रायला) आदि ने त्रिपाठी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

जोधपुर के विश्वकर्मा नगर में गणगौर उत्सव मनाया जा रहा है

मुंबई हलचल / भैरु सिंह राठौड़

राजस्थान। जोधपुर के विश्वकर्मा नगर में भाजपा महिला मोर्चा मंडल लाल सागर ग्रुप द्वारा गणगौर उत्सव मनाया जा रहा है। खूब हर्षोल्लास से गणगौर पूजन किया गया। नाच गाने से गणगौर गुड़ला कार्यक्रम मनाया। इस अवसर पर

आशा कंवर जोधा, महामंत्री एडवोकेट शिवानी वैष्णव, उपाध्यक्ष देवकन्या वैष्णव, लाल सागर मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता राजपुरोहित, पार्षद जानी देवी, गुलाब कुमार, हेमा भाटी, गीता चौधरी, नीतू गहलोत, पद्मा प्रजापत, प्रियंका, एडवोकेट शारदा विश्णोई व गोकुल धाम सोसाइटी की महिलाएं भी शामिल हुईं और गणगौर पर्व का आनंद लिया। उक्त जानकारी वरिष्ठ समाजसेविका आशा कंवर जोधा ने राजस्थान संपादक भैरु सिंह राठौड़ को दी है।



महिला बेस्ट फ्रेंड होने के फायदे

अक्सर यह कह दिया जाता है कि नारी की दुश्मननारी ही होती है, परंतु यदि आप सोचें तो एक नारी को अपने दिल की बात दूसरी नारी को बता कर ही सुकून मिलता है, कभी मां के आंचल की छांव में आकर वो दिल का बोझ हल्का करती है, तो कभी बहन का प्यार उसके दिल पर मलहम लगाता है, कभी सहेलियों की चुललबाजी में वह दिल के राज ब्यां करती है, तो कभी ननद की शरारतों संग कॉलेज की बातें सांझा करती है और कभी अपनी बेटी के साथ बैठ कर छोटी-छोटी बातों की माला गूंधती है अर्थात एक नारी अपने खुशी और गम केवल दूसरी नारी से ही बांट सकती है। कोई रैसिपी पूछनी हो, शॉपिंग पर जाना हो, मूवी देखनी हो या फिर गॉसिप का पिटारा खोलना हो, ऐसे बहुत से कारण हैं जहां एक नारी को नारी की ही जरूरत महसूस होती है।

तनाव मुक्त रहने के लिए

महिलाओं से जुड़ी ऐसी कई बातें होती हैं, जिसे वे चाह कर भी पुरुषों से शेयर नहीं कर पातीं, ऐसे नाजुक समय में उन्हें किसी नारी के साथ की ही बहुत जरूरत होती है, फिर चाहे वह पति-पत्नी के रिश्ते से जुड़ी कोई समस्या या संवेदनशील मुद्दा हो, हेल्थ संबंधी समस्या हो या फिर आपसी अहम की बात हो, पति-पत्नी की आपसी कहा-सुनी हो, पारिवारिक सास-बहू, ननद-जेठानी से जुड़े वाद-विवाद हों या अविवाहित बेटे से तनाव हो, इन तमाम विषयों पर अपनी नजदीकी नारी से बात कर के ही एक नारी खुद को काफी हल्का महसूस करती है। अपने मन की बात दूसरी नारी से सांझी करने के बाद ही स्वयं को हल्का महसूस करती है तथा तनाव मुक्त हो जाती है।



जिम्मेदारियां निभाने के लिए

तीज-त्योहार हो या शादी-ब्याह का माहौल हो, उस समय इतने काम निकल आते हैं कि तब एक महिला को दूसरी महिलाओं की जरूरत महसूस होती है, कितनी ही रस्में हैं, जिन्हें केवल महिलाएं ही निभाती हैं और ऐसे मौकों पर कितने ही काम हैं, जिन्हें वे पूरी जिम्मेदारी से करती हैं।

आज एक परिवार होने के कारण घर पर अधिकांशतः एक ही महिला होती है और जब उसे किसी रिश्तेदार या सहेली का साथ मिल जाता है, तो उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। ये ऐसे मौके हैं, जहां आधुनिक होने के बावजूद भी महिलाएं एक साथ मिल कर अधिकांश कामों को सहजता से निपटा लेती हैं। अतः यह कहना गलत होगा कि केवल संगीत की महफिल ही महिलाओं के दम पर जमती है, बल्कि

हर जिम्मेवारी वाला काम महिलाओं के साथ से ही संभव हो पाता है।

प्रशंसक भी आलोचक भी

हम भले ही कितने भी अच्छे और समझदार हों, परंतु कमी तो हर किसी में रहती है और एक नारी को दूसरी नारी से बेहतर कौन समझ सकता है, तभी तो नारी को अपनी प्रशंसा और आलोचना पर तभी विश्वास होता है, जब वह दूसरी नारी के मुंह से सुनती है, क्योंकि नारी ही दूसरी नारी को बेहतर ढंग से समझ सकती है या कोई बात कह सकती है। वह उससे कड़वा सच भी बिना लाग-लपेट के कह देती है और प्रशंसा भी सहजता से कर देती है, अतः महिलाएं ही एक दूसरे की सही मायने में प्रशंसक एवं आलोचक होती हैं।

जब जीवन साथी से कहना संभव न हो

बहुत सी बातें हैं जो पत्नी अपने पति से नहीं कर पाती और बहुत सी बातों को सुनने का पति देव के पास भी वक्त नहीं होता, अपनी ही व्यस्तताओं में उलझे पति को पत्नी की बहुत सी बातें बेमानी लगती हैं और वह उन्हें या तो बेमन से सुनता है या फिर नजर अंदाज कर देता है।

ऐसे में पत्नी की कोई बेस्ट फ्रेंड या फिर कोई करीबी महिला ही उसकी सबसे बड़ी राजदार होती है, जिससे वह अपनी बातें शेयर कर सकती है या वक्त निकाल कर उसे सुन सकती है।

लंबी उम्र का राज महिलाओं की लंबी उम्र का राज भी शायद यही है कि वह अपने दिल की हर बात अपनी सहेलियों या महिला रिश्तेदारों के साथ सांझी कर लेती हैं, जिससे कि उनके जीवन में कोई टैंशन

रहती ही नहीं है। यही नहीं वह अपनी सोशल लाईफ को भी बेहतरीन तरीके से जीती है। घर-गृहस्थी संभालना, सामाजिक कार्यक्रमों एवं फेस्टिवल में भाग लेना तथा सहेलियों के साथ हंसी-खुशी अपना हर बिता लेना ही उन्हें आदि हेल्दी, खुशमिजाज और खुशहाल लंबा जीवन जीने में मदद करता है।

प्रेरणा का दूसरा नाम

कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी महिला का सहयोग होता है, परंतु यदि महिलाओं की सफलता की बात की जाए।

एक नारी को आगे बढ़े और सफलता के मुकाम पर पहुंचाने वाली भी कोई दूसरी नारी ही होती है, वह भले ही उसकी मां, बहन, बेटा या फिर सहेली के रूप में ही क्यों न हो।

फायदेमंद है मूंगफली

मूंगफली वैसे तो हर मौसम में नमकीन जैसी और भी चीजों में इस्तेमाल होती है लेकिन सर्दियों लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। इसमें ओमेगा 3, प्रोटीन जैसे और भी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आइए जाने इसे खाने के सेहत संबंधी फायदों के बारे में...



1. दिल के लिए

मूंगफली कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार है। इससे दिल संबंधी बीमारियों से बचा जा सकता है।

2. प्रोटीन से भरपूर

प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसे खाने से पुराने सेल्स की मुरम्मत होती है और नए सेल्स का निर्माण होता है जो रोगों से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसे खाने से शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है।

3. पाचन प्रक्रिया

मूंगफली में पाया जाने वाला तेल

पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके सेवन से कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्या से भी राहत मिलती है। इससे पाचन प्रक्रिया बेहतर होती है।

4. गर्भावस्था में जरूरी

मूंगफली का नियमित सेवन प्रेगनेसी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यह गर्भावस्था में शिशु के विकास में मदद करती है।

5. खून की कमी

रोजाना 50 या 100 ग्राम मूंगफली रोजाना खाने से सेहत बनती है। भोजन आसानी से पचता है और शरीर में खून की कमी नहीं होती है।

सर्दियों में बीमारियों से बचने के लिए खाएं ड्राईफ्रूट

सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। सर्दियों का मौसम हर किसी को पसंद होता है। इस मौसम में गरमा-गरम पकवान खाने का अलग ही मजा है। वहीं यह मौसम अपने साथ कई बीमारियों को भी साथ लेकर आता है। अगर आप कुछ चीजों का सेवन करें तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे, जो प्रोटीन और विटामिन्स से भरपूर हैं। तो आइए जानें इन चीजों के बारे में...

अखरोट

अखरोट में पाए जाने वाले तत्व (फाइबर, विटामिन बी, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट) शरीर को स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। रोजाना एक अखरोट खाने से की बीमारियां दूर होती हैं।

बादाम

बादाम का शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बादाम में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और विटामिन्स पाए जाते हैं जो शरीर को कई रोगों से मुक्त करते हैं।

पिस्ता

पिस्ता का सेवन करने से हार्ट अटैक




और कोलेस्ट्रॉल से बचा जा सकता है। इसमें पाए जाने वाले तत्व शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं।



'शाहिद एक्टिंग को लेकर मुझसे राय नहीं लेते'

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर पंकज कपूर ने खुद को किसी एक तरह की स्टोरी टेलिंग में नहीं सीमित रखा। वो गंभीर और हास्य दोनों तरह की फिल्मों में लगातार दिखते रहे हैं। पंकज कपूर ने कहा कि मेरे लिए वह कहना मुश्किल है। सच कहूं तो किसी भी कलाकार के लिए ऐसे चुन पाना मुश्किल ही है। मुझे शाहिद कपूर का काम हैदर में बड़ा अच्छा लगा। मौसम में भी वो मुझे बेहद अच्छे लगे। कबीर सिंह और फर्जी में उनका काम मुझे बेहद पसंद आया है। वो दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वह बतौर अभिनेता और बेहतर होते जा रहे हैं। जो बड़ी मुबारक बात है। मुझे इस बात का गर्व है। बहुत खुशी भी है कि वो एक ऐसे माहौल में अपनी जगह बना पा रहे हैं, जहां वो न सिर्फ बतौर स्टार, बल्कि अभिनेता के तौर पर भी बेटर कर रहे हैं। वो हमेशा लोगों की यादों में रहने वाले हैं। अच्छी चीज यह है कि वो कैरेक्टर प्रेप को लेकर मेरी राय नहीं लेते, वो अपने तरीके से किरदारों में रंग भरते हैं।



शाहरुख की वजह से ऐश्वर्या को नहीं मिल पाई चलते-चलते?

एक समय पर शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था। दोनों ने मोहब्बतें सहित साथ में कई फिल्मों में काम किया। हालांकि बाद में इन दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। वजह ये थी कि शाहरुख ने ऐश्वर्या को कई फिल्मों से रिप्लेस करा दिया था। ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो और शाहरुख फिल्म चलते-चलते में साथ काम करने वाले थे, लेकिन अचानक उन्हें बिना बताए फिल्म से निकाल दिया गया। ऐश्वर्या की जगह रानी मुखर्जी को कास्ट कर लिया गया। बाद में इसके लिए शाहरुख खान ने ऐश्वर्या से माफी भी मांगी थी। ऐश्वर्या राय बच्चन ने सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में फिल्मों से निकाले जाने पर शाहरुख पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। सिमी ग्रेवाल ने ऐश्वर्या से पूछा कि क्या सच में उन्हें शाहरुख की कई फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

जवाब में ऐश्वर्या ने कहा, अब मेरे पास इस सवाल का जवाब कैसे हो सकता है।

ये जरूर है कि हम लोग साथ में कुछ फिल्म करने वाले थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उन फिल्मों से निकाल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐश्वर्या को शाहरुख की लगभग पांच फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। ऐश्वर्या का कहना था कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके साथ क्या हुआ।

'शबाना की वजह से बन पाई अर्थ'

शबाना आजमी को उनकी फिल्म अर्थ में दमदार एक्टिंग के लिए आज भी सराहा जाता है। इस फिल्म का डायरेक्शन महेश भट्ट ने किया था। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि शबाना ने फिल्म अर्थ के लिए एक रूपरेखा की फीस भी नहीं ली थी। इतना ही नहीं महेश ने कहा कि फिल्म अर्थ शबाना आजमी के बिना कभी संभव नहीं थी। महेश ने

कहा- शबाना ने खुद को उस किरदार में पूरी तरह से झोंक दिया था। इस रोल के लिए उन्होंने फीस तक नहीं ली थी। वो फिल्म के सेट पर शूटिंग के लिए अपने कपड़े भी खुद लेकर आती थी। इतना ही नहीं शबाना

अपने अलावा स्मिता पाटिल के लिए भी कपड़े लेकर आया करती थीं, जो उस दौर में उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी मानी जाती थीं। पुरानी यादों का जिक्र करते हुए महेश ने कहा- फिल्म में एक सीन है, जिसमें शबाना का कैरेक्टर अपने पति कुलभूषण की प्रेमिका के घर जाता है और उसे दूसरा मौका देने के लिए कहता है और चाहता है कि वो उसके पति के पास वापस लौट जाए। शबाना इस किरदार में इतना डूब गई थी कि सीन खत्म होने के बाद फूट-फूटकर रोई थीं। उन्हें देखकर मैं खुद टूट गया था।

